

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मई 2015—ज्येष्ठ 7, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2015

क्र. 134 एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	01- भेरूगढ़ वार्ड 08- अवंतिका वार्ड 17- सांदिपनी वार्ड 37- प्रकाशनगर वार्ड 39- किशनपुरा वार्ड 40- श्री सिंथेटिक्स वार्ड 41- चकोरपार्क वार्ड 43- लक्ष्मीनगर वार्ड 45- संत विद्यानारायण वार्ड 53- इंजीनियरिंग वार्ड 54- नागझिरी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	33- हरसिद्धी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	14	06- गांधी नगर वार्ड 07- अंकपात वार्ड 10- तिलकेश्वर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			13- वीर दुर्गादास वार्ड 19- सिंहभवानी वार्ड 20- बृहस्पति वार्ड 21- गोपाल मंदिर वार्ड 22- रामानुज वार्ड 23- पालिका वार्ड 25- चामुण्डा माता वार्ड 29- पुष्कर वार्ड 30- बेगमबाग वार्ड 48- नानाखेड़ा वार्ड 50- ऋषिनगर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	05	08- अवंतिका वार्ड 37- प्रकाशनगर वार्ड 39- किशनपुरा वार्ड 41- चकोरपार्क वार्ड 45- संत विद्यानारायण वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	07	06- गांधी नगर वार्ड 07- अंकपात वार्ड 10- तिलकेश्वर वार्ड 13- वीर दूर्गादास वार्ड 20- बृहस्पति वार्ड 21- गोपाल मंदिर वार्ड 23- पालिका वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05 व 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	14	02- गढ़कालिका वार्ड 03- मंगलनाथ वार्ड 05- इंदिरा नगर वार्ड 09- चौसठ योगिनी वार्ड 12- कालिदास वार्ड 15- गीता कॉलोनी वार्ड 16- गोवर्धन सागर वार्ड 18- सुदामा वार्ड 24- क्षीरसागर वार्ड 28- सुभाष वार्ड 34- महाकाल वार्ड 35- डॉ. हरिराम चौबे वार्ड 38- जालसेवा वार्ड 46- शास्त्रीनगर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.